

## Chapter- 15

# मुहावरे और लोकोक्तियाँ

## STUDY NOTES

### विषय सारांश:

जो वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं।

### मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग:

१. **अगर-मगर करना** (टाल-मटोल करना)- दादा जी ने विनय से बाज़ार जाने के लिए कहा, तो वह अगर-मगर करने लगा।
२. **आँखों में धूल झोंकना** (धोखा देना)- अपराधी ने पुलिस की आँखों में धूल झोंककर भागना चाहा, पर वह सफल नहीं हुआ।
३. **हवा से बातें करना** (बहुत तेज़ भागना)- राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था।
४. **नमक-मिर्च लगाना** (बढ़ा-चढ़ाकर कहना)- देवेश की बात पर भरोसा मत करना; उसे नमक-मिर्च लगाने की आदत है।
५. **काम तमाम करना** (मार डालना)- सेना ने कुछ पलों में ही शत्रु का काम तमाम कर दिया।
६. **चिकना घड़ा** (कुछ असर न होना)- मयंक को कुछ समझाना बेकार है, वह तो चिकना घड़ा है।
७. **बाल-बाल बचना** (बहुत कठिनाई से बचना)- रेल दुर्घटना में सभी यात्री बाल-बाल बच गए।
८. **अंग-अंग ढीला होना** (बहुत थक जाना)- दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद मज़दूर का अंग-अंग ढीला हो रहा है।
९. **बाएँ हाथ का खेल** (बहुत आसान काम)- कंचन के लिए तीन-चार किलोमीटर दौड़ना बाएँ हाथ का खेल है।
१०. **कान भरना** (चुगली करना)- मनीष काम करने की जगह सारा दिन मालिक के कान भरता रहता है।

## कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ-

- |     |                        |   |                    |
|-----|------------------------|---|--------------------|
| १.  | अकल का दुश्मन          | - | मूर्ख              |
| २.  | आँखों का तारा          | - | बहुत प्यारा        |
| ३.  | आँखों दिखाना           | - | गुस्सा करना        |
| ४.  | आँखें खुलना            | - | सच्चाई का पता चलना |
| ५.  | आसमान सिर पर उठाना     | - | बहुत शोर करना      |
| ६.  | नाकों चने चबवाना       | - | बहुत परेशान करना   |
| ७.  | कान पर जूँ न रेंगना    | - | बिलकुल असर न होना  |
| ८.  | नानी याद आना           | - | होश ठिकाने आना     |
| ९.  | ठोकरें खाना            | - | कष्ट सहना          |
| १०. | लोहा लेना              | - | मुकाबला करना       |
| ११. | बाल बाँका न होना       | - | सुरक्षित रहना      |
| १२. | इज्जत धूल में मिलना    | - | सम्मान नष्ट होना   |
| १३. | दाल न गलना             | - | सफल न होना         |
| १४. | दाँतों तले उँगली दबाना | - | हैरान होना         |
| १५. | छक्के छुड़ाना          | - | बुरी तरह हराना     |
| १६. | छत्तीस का आँकड़ा       | - | पक्का दुश्मन होना  |
| १७. | लाल-पीला होना          | - | बहुत गुस्सा होना   |
| १८. | घी के दीये जलाना       | - | खुशियाँ मनाना      |
| १९. | नाक में दम करना        | - | परेशान करना        |
| २०. | नौ दो ग्यारह होना      | - | भाग जाना           |

## आइए, अब लिखें-

१. दिए गए चित्रों के लिए एक-एक मुहावरा लिखिए।



दाँतों तले उँगली दबाना

घी के जलाना

अक्ल का दुश्मन

२. निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ लिखिए।

क) ठोकरें खाना - कष्ट सहना

ख) बाल बाँका न होना - सुरक्षित रहना

ग) छक्के छुड़ाना - बुरी तरह हराना

घ) लाल-पीला होना - बहुत गुस्सा होना

ङ) कान भरना - चुगली करना

३. उचित मुहावरो द्वारा खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए।

(अंग-अंग ढीला होना, छक्के छुड़ाना, नमक-मिर्च लगाना, नाक में दम करना, नौ दो ग्यारह होना)

क) हवलदार को अपनी और आते देख चोर नौ दो ग्यारह हो गए।

ख) अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत नमक मिर्च लगाकर की।

ग) सारा दिन चलते-चलते हमारा अंग अंग ढीला हो गया।

घ) भारतीय सेना ने बुद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए।

ङ) छुट्टियों में बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया।

४. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
- क) लोहा लेना- भारतीय सेना ने दुश्मनों से लोहा लिया।
- ख) नौ दो ग्यारह होना- चोर पुलिस को देखकर नौ दो ग्यारह हो गया।
- ग) अगर-मगर करना- रोहन से कुछ काम करने के लिए कहो तो वह अगर-मगर करता है।
- घ) ढाल न गलना- तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ तुम्हारी ढाल न गलेगी।
- ड) भीगी बिल्ली बनना- मयंक पापा को देखकर एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है।

